



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 69]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 17, 2012/पौष 27, 1933

No. 69]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 17, 2012/PAUSA 27, 1933

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2012

का.आ. 78(अ).—जबकि केन्द्रीय सरकार ने, गण्टीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई और भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में 18 जनवरी, 2011 के का.आ. संख्या 108(अ) के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना के द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 75 के कि.मी. 135.000 से कि.मी. 149.000 (बमीठा-सतना खंड) तक भूमि खंड के निर्माण (चौड़ीकरण/चार लेन का बनाया जाना आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन एवं प्रचालन के लिए उक्त अधिसूचना के साथ उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी।

और जबकि उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अंतर्गत 12 मार्च, 2011 के “द हितवाद जबलपुर संस्करण” और 12 मार्च, 2011 के “देशबन्धु सतना संस्करण” में प्रकाशित किया गया है;

और जबकि सक्षम प्राधिकारी को किसी भी व्यक्ति से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

और जबकि सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है।

इसलिए अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए।

और इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में, एतद्वारा यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, सभी वित्तीयगणों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

संरचना के साथ अथवा संरचना के बगैर अधिगृहीत की जाने वाली उस भूमि का संक्षिप्त विवरण जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 के कि.मी. 135.000 से कि.मी. 149.000 (बमीठा-सतना खण्ड) तक के भूमि खंड में है

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	भू स्वामियों/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सतना	नागौद	बारापत्थर	566	निजी	कृषि	0.105	पियरिया पुत्री कन्धइया काछी
			डाम्हा	466/1	निजी	कृषि	0.052	सत्येन्द्र कुमार दुबे पुत्र श्री गुलाब चन्द्र दुबे
				466/2	निजी	बंजर	0.042	श्रीमती कुसुम पत्नी रामावतार, श्रीमती ममता पत्नी श्री प्रमोद कुमार चमडिया
				465	निजी	कृषि	0.065	श्रीमती कुसुम पत्नी रामावतार एवं श्रीमती ममता पत्नी श्री प्रमोद कुमार चमडिया
				471/3	निजी	कृषि	0.009	सत्य किशोर पुत्र श्री तीरथ प्रसाद
				472/2	निजी	बंजर	0.063	सत्य किशोर पुत्र श्री तीरथ प्रसाद
			मौहारी	386	निजी	कृषि	0.235	सुनीत कुमार पुत्र श्री जगजीवन राम एवं विद्याबाई पत्नी श्री जगजीवन राम
				400/2	निजी	कृषि	0.073	डॉ. पुनीत पुत्र श्री हरी अग्रवाल
				400/1क/1ख	निजी	कृषि	0.050	डॉ महेन्द्र सिंह पुत्र श्री धीरेन्द्र सिंह
				400/1क/1ख/1	निजी	कृषि	0.040	अनिल कुमार त्रिपाठी पुत्र श्री उर्मिला प्रसाद त्रिपाठी
				399/2	निजी	कृषि	0.015	राजा झैया, झैया राजा पुत्र श्री जयलाल कोटवार
				392	निजी	कृषि	0.096	श्रीमती कुसुम पत्नी श्री रामावतार एवं श्रीमती ममता पत्नी श्री प्रमोद कुमार चमडिया
				393	निजी	कृषि	0.105	
				1696	निजी	कृषि	0.017	श्रीमती आरती ठक्कर पत्नी श्री अश्वनी कुमार ठक्कर

[फा. सं. आरडब्ल्यू/एनएच/37014/22/2010-एनएचडीपी-IVए]

भाया प्रकाश, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th January, 2012

S.O. 78(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 108 (E) dated the 18th January 2011, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No.75 on the stretch of land from Km 135.000 to Km-149.000 (Bamitha- Satna Section) in the State of Madhya Pradesh.

And whereas the substance of the said notification has been published in the "The Hitavada Jabalpur edition" dated 12th March 2011 & "Desh Bandhu Satna edition" dated 12th March 2011; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objection has been received from any person by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from km. 135.000 to km. 149.000 (Bamitha-Satna Section) on the National Highway No. 75 in the State of Madhya Pradesh

Sl. No.	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Survey number	Type of land	Nature of land	Area in hectares	Name of the land owner/ Interested persons
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Satna	Nagaud	Barapathar	566	Private	Agriculture	0.105	Piyariya D/o Kandhaiya Kachhi
			Damha	466/1	Private	Agriculture	0.052	Satendra Kumar Dubey S/o Gulab Chandra Dubey
				466/2	Private	Barren	0.042	Smt. Kusum W/o Ramawtar & Smt. Mamta W/o Promod Kumar Chamadiya
				465	Private	Agriculture	0.065	Smt. Kusum W/o Ramawtar & Smt. Mamta W/o Promod Kumar Chamadiya
				471/3	Private	Agriculture	0.009	Satya Kishor S/o Tirath Prasad
				472/2	Private	Barren	0.063	Satya Kishor S/o Tirath Prasad
			Mauhari	386	Private	Agriculture	0.235	Sunit Kumar S/o Jagjiwan Ram & Vidhya Bai W/o Jagjiwan Ram
				400/2	Private	Agriculture	0.073	Dr. Punit S/o Hari Agrawal
				400/1A/1B	Private	Agriculture	0.050	Dr. Mahendra Singh S/o Dharendra Singh
				400/1A/1B/1	Private	Agriculture	0.040	Anil Kumar Tripathi S/o Urmila Prasad Tripathi
				399/2	Private	Agriculture	0.015	Raja Bhaiya, Bhaiya Raja S/o Jailal Kotwar
				392	Private	Agriculture	0.096	Smt. Kusum W/o Ramawtar & Mamta W/o Promod Kumar Chamadiya
				393	Private	Agriculture	0.105	
				1696	Private	Agriculture	0.017	Smt. Arti Thakkar W/o Ashwani Kumar Thakkar

[F No. RW/NH/37014/22/2010-NHDP-IVA]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.